


बड़ी कार्रवाई / कलर प्रिंटर पर छापे 7.68 लाख के नकली नोट, लॉकडाउन में पालनपुर में सप्लाई किए, गुजरात एसओजी ने तीन को गिरफ्तार किया



- कार और घर से बरामद किए थे यह नकली नोट, दो की गिरफ्तारी पर सिरोही से तार जुड़े होने का हुआ खुलासा
- पहली बार सामान्य कलर प्रिंटर पर नकली नोट छापे थे, 2-2 हजार के 384 नोट छापकर सप्लाई किए

दैनिक भास्कर

Jun 09, 2020, 08:59 AM IST

सिरोही. गुजरात एसओजी ने रविवार देर रात जिले के कालंद्री और मंडवारिया में कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने के मामले में तीन लोग शंकरलाल, लालाराम और जलाराम को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम तीनों आरोपियों को पालनपुर ले गई है।

एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि यह 7.68 लाख के यह नकली नोट कालंद्री में ही छापे गए थे और यहीं से लॉकडाउन के दौरान गुजरात सप्लाई किए गए। पूछताछ में हमीरभाई पटेल ने बताया था कि उन्होंने सिरोही के जालाराम देवासी से जाली नोट खरीदे थे। पालनपुर एसओजी ने शनिवार को वाव तालुका पंचायत के कार्यकारी के पति समेत एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था।

पालनपुर से डीसा की ओर जा रही एक कार को रुकवाया तो आरोपी भाग निकला। इस पर एसओजी ने चेदवर ओवरब्रिज के पास उसे रोककर कार की तलाशी ली तो उसमें 2-2 हजार रुपए के नकली नोट मिले। इसके बाद एक अन्य के घर से भी नकली नोट जब्त किए।

इस पर पुलिस ने हमीर पूनम भाई पटेल और रामा भाई पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि वे यह नोट सिरोही के कालंद्री से लेकर आए थे। इस पर एसओजी टीम के सब इंस्पेक्टर नयन सिंह परमार के नेतृत्व में रविवार रात टीम कालंद्री और मंडवारिया पहुंची, जहां कालंद्री से शंकरलाल रेबारी को प्रिंटर के साथ गिरफ्तार किया।

इसके साथ ही लालाराम और जलाराम को भी गिरफ्तार कर पालनपुर ले गई। शंकर देवासी के घर से जाली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर, इंक, सैलो टेप एवं जाली मुद्रा छापने में इस्तेमाल कागज सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अभी नकली नोट की सप्लाई गुजरात में ही करने की बात सामने आ रही है।

ऐसे नकली नोट कि पानी डालो तो रंग उड़ जाए

गुजरात एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के घर से जो प्रिंटर मिला है वह सामान्य कलर प्रिंटर ही है। यह नकली नोट ऐसे थे कि पानी डाले तो रंग उड़ जाए। पालनपुर एसओजी में जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने बताया कि यह नोट वे आधी कीमत में बेचने का धंधा करते थे। यानी 2 हजार रुपए के नकली नोट को बाजार में 1 हजार रुपए में बेचने की तैयारी में थे।

सभी नोट के सीरियल नंबर अलग-अलग

पालनपुर एसओजी ने जिन 384 नकली नोट को जब्त किया है उन सभी नकली नोट के सीरियल नंबर अलग-अलग थे। हमीर भाई के पास से मिले नकली नोट के सीरियल नंबर 1 से 200 और रामभाई से मिले नोट के सीरियल नंबर 201 से 384 थे। खास बात यह है कि यह दोनों ही पदाधिकारी भी है।

इनमें से एक वाव तालुका पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष का पति और दूसरा देवरोड मार्केट यार्ड का पूर्व निदेशक है। हमीरभाई पटेल दियोदर तहसील के कुवाता गांव में सेवा सहकारी मंडली से 15 साल से जुड़ा है।

वह दियोदर मार्केट यार्ड में डायरेक्टर भी रह चुका है। इसके अलावा रामाभाई पटेल की पत्नी वाव तहसील पंचायत की कार्यकारिणी समिति की चेयरमैन हैं। इतना ही नहीं, रामाभाई की थराद मार्केट यार्ड में दुकान भी है। वह कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसके कर्जदार होने की भी बात सामने आई है।

- टीम ने नकली नोटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि सिरोही से यह नोट सप्लाई हुए थे। इस पर रविवार रात कालंद्री व मंडवारिया में कार्रवाई करते हुए शंकरलाल रेबारी, लालाराम और जलाराम को गिरफ्तार किया है। शंकरलाल रेबारी के घर से प्रिंटर भी मिला है और आरोपियों ने पहली बार ही कलर प्रिंटर पर यह नकली नोट छापे थे। जलाराम ने लॉकडाउन के दौरान गुजरात में नकली नोट सप्लाई किए थे। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है और अभी तक यही सामने आया है कि सिरोही में इन्होंने इनकी सप्लाई नहीं की है। - **नयनसिंह परमार, सब इंस्पेक्टर, एसओजी, पालनपुर सामान्य कलर प्रिंटर पर पहली बार ही छापे नकली नोट**

एसओजी की ओर से हुई पूछताछ में सामने आया कि कालंद्री के शंकरराम ने यहीं पर ही नकली नोट छापे थे। पहली बार उन्होंने यह नकली नोट छापे थे और वह भी सामान्य कलर प्रिंटर पर। इस दौरान उन्होंने 2-2 हजार के 384 नोट छापकर गुजरात सप्लाई किए थे। खास बात यह थी कि सिरोही से ही यह नकली नोटों की खेप लॉकडाउन के दौरान गुजरात में सप्लाई की गई थी।